



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1983/अग्रहायण 26, 1905

No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 1983/AGRAHAYANA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 53 आई टी सी (पीएन)/83

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1983

विषय. निर्यात उत्पादन के लिए रियायती सीमा-शुल्क के साथ कुछ वस्त्र
मशीनरी का आयात।

मिसिल सं० आई पी सी/4/विधि/121/83-84 - वस्त्र मशीनरी के
कुछ मॉडलों के आयात पर सीमा-शुल्क की रियायत में संबंधित अधिसूचना
सं० 284/83-सीमाशुल्क, विभाग 3 अक्टूबर, 1983 द्वारा यथासंशोधित
बिस् मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 257/83-सीमाशुल्क,
दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 (प्रतिभा संलग्न है) की ओर ध्यान दिलाया
जाता है।

2 उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसरण में, इच्छुक आयातकों को
निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-

(i) करघे/रोटर स्पिनिंग मशीनों (जहाँ पर भी लागू हो) के सबंध
में आवश्यक प्रतिस्थापन की आज्ञा वस्तु अधिभुक्त के संबंध क्षेत्रीय कार्यालय
से प्राप्त की जाएगी।

(ii) रोटर स्पिनिंग मशीनों के मामले में जो कि एक लाइसेंस योग्य
मद है, आयातक मिल आयात लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही लाइ-
सेंस प्राधिकारियों से संधि स्थापित करेंगी।

(iii) इच्छुक मिल लाइसेंस प्राधिकारियों को (क) मशीनरी का
लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और समावित सुपुर्देगी भवध वशति हुए करघे या
रोटर स्पिनिंग मशीनों का प्रपत्र बीजक और (ख) अपने बैंक द्वारा खोले
गए साख-पत्र की फोटो स्टेट प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक आवेदन
भेजेंगी।

(iv) सीमा-शुल्क के माध्यम से माल की निकासी से पहले अनुबंध
"क" के अनुसार बैंक गारंटी के साथ आवश्यक बांड संबंध लाइसेंस प्राधि-
कारी को निष्पादित किया जाएगा। बांड आयातित मशीनरी के लागत-
बीमा भाड़ा-मूल्य के तुल्य धनराशि के लिए होगा। इसके साथ बैंक गारंटी
भी होगी। बैंक गारंटी परिवर्तनशील होगी और जब तक निर्यात आभार
पूर्ण न हो जाए इसका नवीकरण होता रहेगा। बैंक गारंटी की धनराशि
आयातित मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के साढ़े बारह प्रतिशत के
बराबर होगी।

(v) आयातित करघों के मामले में, इनके द्वारा उत्पादित माल के
कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा।

(vi) आयातित रोटर स्पिनिंग मशीनों के मामले में इन रोटर स्पि-
निंग मशीनों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भाग या तो भारत वर्ष
से बाहर निर्यात किया जाएगा या इस प्रकार उत्पादित माल भारत से बाहर
भेजे जाने वाले घागे के उत्पादन में उपयोग में लाया जाएगा।

उपर्युक्त कड़िका (v) और (vi) में उल्लिखित निर्यात आभार, उक्त
करघों द्वारा या उक्त रोटर/स्पिनिंग मशीनों द्वारा इन में जो भी हो, उत्पा-
दन के आरम्भ होने से 8 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(vii) आयातक मिल करवों के आयात करने की तिथि से अधिक से अधिक छः मास की अवधि के भीतर उत्पादन प्रारम्भ कर देगी।

(viii) आयातक फर्म प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में वस्तु आयुक्त को संभावित उत्पादित और निर्यातित घागे/माल की मात्रा और किस्म का ब्योरा देते हुए उत्पादन की प्रथम योजना भेजेगा। प्रथम प्रथम योजना आयातित मशीनरी की स्थापना की तिथि से एक मास के भीतर भेजी जाएगी।

(ix) अनुसूचण और निर्यात आभार को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च से प्रारम्भ होगा।

(x) आयात करने वाली व्यापार संस्था प्रत्येक छः महीनों में उत्पादन और निर्यातों का पूर्ण ब्योरा भी अनुबंध "ग" की सूची के अनुसार वस्तु आयुक्त को देगी। उत्पादन की योजना में कोई भी अन्तर होने पर उसकी सूचना कारण स्पष्ट करते हुए वस्तु आयुक्त को देनी होगी।

(xi) व्यापार संस्था पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुबंध में उल्लिखित सूचना देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट संबंध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को और उसकी एक प्रति वस्तु आयुक्त, बम्बई को भेजेगी। वस्तु आयुक्त यह सत्यापित करेगा कि क्या वार्षिक रिपोर्टें, उत्पादन योजना, छमाही रिपोर्टें और आयातित मशीनरी की क्षमता के अनुरूप हैं या नहीं। उसके बाद वस्तु आयुक्त, आयात करने वाली व्यापार संस्था द्वारा क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजी गई वार्षिक विवरण पर पुष्ठांकन करेगा। वस्तु आयुक्त से रिपोर्टें प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी एक वर्ष के लिए निर्यात आभार लेखों का निर्णय करेगा और आने की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक

अनुबंध—क

शुल्क कटौती योजना के अंतर्गत निष्पादित किया जाने वाला निर्यात आभार के बंधपत्र का प्रपत्र।

इस विवेक द्वारा सभी लोगों को यह ज्ञात हो कि..... हम (हैं)..... जिनका इसके बाद "आयातक" के रूप में उल्लेख किया गया है (जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और जिसकी परिभाषा में उसके/उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) और (2)..... के..... जिसे इनके बाद "जमानती" के रूप में कहा जाएगा (जिसका परिभाषा में उसके/उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) संयुक्त रूप से अलग-2 बचनबद्ध है और भारत के राष्ट्रपति जिसे बाद में "सरकार" कहा गया है को उपर्युक्त सरकार या उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी को भदा की जाने वाली मशीन का लागत बीमा भाड़ा मूल्य) रुपए की उस धनराशि के लिए प्राबद्ध है, जिसके भुगतान के लिए हम अपने आप और हम में से प्रत्येक हमारे बारिस, निष्पादक, शासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस विवेक द्वारा जिसे भारत बाद में उपर्युक्त तरीके से उपर्युक्त सरकार को भदा किए जाने के लिए कहा जाएगा, प्राबद्ध है।

2. प्राज की तारीख..... की हस्ताक्षर कर दिए गए और हगारी अलग-अलग मोहरों से मोहर लगा दी गई।

3. जब कि संयुक्त/उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ने (जिसे बाद में संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक कहा गया है जिसकी परिभाषा में फिनहल बहु व्यक्ति शामिल है जो उपर्युक्त संयुक्त/उप मुख्य नि० का कार्य देख रहा है, ३ खिल मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 257/83-कस्टम, दिनांक 1-9-83 और सं० 284/83-कस्टम दिनांक 3-10-83 में उल्लिखित सीमाशुल्क दरों में रियायत और निर्यात आभार की शर्तों पर इस बंधपत्र के अनुबंध-1 में सूचीबद्ध और वस्तु आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गई आवश्यक

प्रतिस्थापित स्वीकृति के आधार पर करवा (करवों)/कताई की मशीन (नों) का आयात करने के लिए अनुमति प्रदान की है।

4. और जब कि उपर्युक्त अधिसूचना की एक शर्त में यह व्यवस्था की है कि आयातक ऐसी शर्तों के साथ जो यहां नीचे दी गई हैं, ऊपर उल्लिखित तरीके में एक पर्याप्त जमानत के साथ बंधपत्र का निष्पादन करेगा।

5. अब उपर्युक्त लिखित बांड की शर्तें ऐसी हैं कि:—

यदि उपर्युक्त आयातक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन के भीतर बंध पत्र के अनुबंध-1 में उल्लिखित आयातित और उपर्युक्त पैरा-3 में दी गई शुल्क रियायत से संबंधित जित मंत्रालय की अधिसूचना के मुद्दे आयातित मशीनरी और लाइसेंस और आयातित मशीनरी के साथ उत्पादन के आरंभ होने की तारीख से 8 वर्षों की अवधि के लिए आयातित मशीनरी से प्रत्येक वर्ष प्राप्त उत्पादन के 75% के लिए किए गए निर्यात को वसति हुए शुल्क रियायत की शर्तों के अनुसार भारत से बाहर (यदि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में नहीं अथवा किया गया हो तो नेपाल और अफगानिस्तान में किसी भी स्थान तथा भूतान में किसी भी स्थान को छोड़कर) (निर्यातित माल की कुल मात्रा और जहां पर्यन्त निशुल्क मूल्य के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं० 53-आई टो सी (पी एन)/83 दिनांक 17-12-83 के अनुबंध "ख" और "ग" में यथा उल्लिखित उत्पादन और निर्यात के ब्योरे विविष्ट करते हुए सनकी लेखापाल द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र और आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1983-84 के परिशिष्ट -10 के अनुबंध-9 में दिए गए प्रपत्र में जहां पर्यन्त निशुल्क वस्तुओं को दर्शाते हुए एक बैंक प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष (अप्रैल-मार्च) की समाप्ति के 6 महीने के भीतर क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेजेगा और उसके प्रति वस्तु आयुक्त, बम्बई को देगा तो यह लिखित बंध पत्र निष्क्रिय समझा जाएगा। अन्यथा यह बंध पत्र अपने सब अधिकारों और प्रभाव के साथ पूर्ण रूप से लागू रहेगा।

6. और एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि:—

(क) उपर्युक्त लिखित बांड निर्यात आभार की अवधि की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो आयात लाइसेंस प्राधिकारी की सूक्ष्मता से बढ़ाया जा सकता है। यह बंध पत्र मवीकरण करने योग्य होगा और इसका तब तक नवीकरण किया जाएगा जब तक निर्यात आभार पूरा न हो जाए और यह इस तरह की आयातित मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 100% के बराबर होगा। यह बंधपत्र इसके पूरे मूल्य के लिए उपर्युक्त जमानत को गारंटी द्वारा समर्थित होता है;

परन्तु फिलहाल जमानत बंधपत्र के कुल मूल्य के 12-1/2 प्रतिशत को पूरा करने के लिए एक परिवर्तनीय गारंटी है और समय-समय पर जब भी इसकी आवश्यकता पड़े इसका नवीकरण किया जा सकता है और/या इसको प्रतिवृत्ति की जा सकती है। बंधपत्र की समाप्ति तक गारंटी पूर्ण प्रभाव के साथ लागू रहेगी।

(ख) आयात के खिलाफ उपर्युक्त बांड शर्तों को लागू करने हुए सरकार को ओर से कोई भी सहिष्णुता या तृप्ति हमसे संबंधित आयातक की सरकार द्वारा किसी सेवार्थ मजूर किया जाने वाला कोई भी समय जमानती को मुक्त नहीं करेगा;

(ग) यह बांड उस अधिनियम के निष्पादन के लिए केंद्रीय सरकार के आदेशों के अंतर्गत दर्ज किया गया है जिसमें सार्वजनिक हित निहित है।

(घ) यह कि बांड की धनराशि का यह भुगतान आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 या आदेशों और/या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और/या तत्कालीन किमी अन्य अस्थाई रूप

से लागू कानून के अधीन की गई कार्रवाई से आयातकों के बाधित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ड.) कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही, किसी विशेष वर्ष में निर्यात आभार में रही कमी के मामले में, सरकार निर्यात आभार में कमी के बराबर बाण्ड धनराशि को मांग सकती है। उस वर्ष में निर्यात आभार में कमी की सीमा तक की धनराशि के बराबर बैंक गारन्टी की वसूली की जाएगी और अत्यंत इस बैंक गारन्टी को नवीकरण कराएगा ताकि निर्यात आभार की शेष अवधि को कायम रखने के लिए यह गारन्टी आयातित मशीनरी के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 12-1/2% तक हो जाए।

(घ) उपर्युक्त कंडिका (ड.) के प्रावधानों के बावजूद, यदि आयातक दो वर्ष की लगातार अवधि के लिए निर्यात आभार पूरा करने में दोषी रहता है तो साइंसेस प्राधिकारी बाण्ड के पूरे मूल्य की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार इस बाण्ड पर स्टाम्प शुल्क भुगतान करने के लिए सहमत है।

इसके साथ स्वल्प ऊपर सर्व प्रथम लिखी तारीख को इस विवेक के पक्षकारों ने इसे सम्यक रूप से निष्पादित किया।

आयातकों (इनके नाम यहाँ दर्शाए जाए) द्वारा और उनके पक्ष में हस्ताक्षर किए गए, मुद्रा लगाई गई और परिवान किया गया।

निम्नलिखित की उपस्थिति में :—

- 1.
- 2.

(साक्षियों को अपने ब्यवसाय और पते भी देने चाहिए)

निम्नलिखित की उपस्थिति में :—

- 1.
- 2.

(साक्षियों को अपने ब्यवसाय और पते भी देने चाहिए)

यहां गए नाम के जमानती द्वारा और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए, मुहर लगाई गई और सौंप दिया गया।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृत

(प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

टिप्पणी: यदि धाय/जमानती कारोबार का झकेला स्वामी है तो उसका नाम और पता देते हुए उसके "बारिस", निष्पादक और प्रशासक जोड़े जाएं। यदि धाय/जमानती साक्षीदारों की फर्म है तो फिलहाल उपर्युक्त फर्म के साक्षीदार और उसके तत्संबंधी बारिस, निष्पादक और प्रशासक जोड़े जाएं। यदि धाय/जमानती एक लि. कंपनी है तो उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशित जोड़े जाएं।

अनुबन्ध ख

निम्नलिखित को दर्शाते हुए, वस्त्र आयुक्त, बम्बई को भेजी जाने वाली छमाही रिपोर्टें:—

1. आयातित करघे

(क) करघों का विशिष्टकरण और उत्पादन क्षमता, काम की गई शिपटों की संख्या, करघे की क्षमता और सामर्थ्य उपयोगिता में संबंधित सूचना।

(ख) उत्पादन:—

- (1) करघों पर उत्पादित प्रत्येक किस्म के करघे का विशिष्टकरण।
- (2) प्रत्येक किस्म के उत्पादित करघे की वर्ग मीटर में मात्रा।
- (3) निर्यातित करघे की प्रत्येक किस्म के निर्यात आंकड़े (वर्ग मीटर में) और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।

2. रोटोर स्पिनिंग मशीन:—

(क) स्पिनिंग मशीन के रोटोरों की संख्या और उत्पादन क्षमता, काम की गई शिपटों की संख्या, कतारों की क्षमता और उपयोगिता क्षमता:

(ख) उत्पादन:—

- (1) काउंट बार उत्पादन/रोटोर/8 घण्टे की शिपट (कि० ग्रा० में) दर्शाते हुए काउन्ट।
- (2) उत्पादित धागे की मात्रा (कि० ग्रा० में)।
- (3) जहाज पर्यन्त मूल्य दर्शाते हुए निर्यातित धागे की मात्रा (कि० ग्रा० में)।
- (4) निर्यात के उद्देश्य के लिए करघे के विनिर्माता को वितरित धागे की मात्रा (कि० ग्रा० में) और काउन्ट।
- (5) विनिर्मित और निर्यातित वस्त्र का विशिष्टकरण और मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य।

अनुबन्ध ग

क:—प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय साइंसेस प्राधिकारी को भेजा जाने वाला न्याया और उसकी एक प्रति वस्त्र-आयुक्त के कार्यालय, बम्बई को भेजी जानी चाहिए:

1. करघे

- (1) आयातित करघे पर उत्पादित करघे के सम्बन्ध में उत्पादन (वर्ग मीटर में)
- (2) करघों का निर्यात वर्ग मीटर में और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और वह देश जिन्हें वे निर्यात किए गए थे।

2. रोटोर स्पिनिंग मशीन:—

- (1) आयातित रोटोर स्पिनिंग मशीन पर उत्पादित धागे के संबंध में उत्पादन (कि० ग्रा० में)।
- (2) निर्यातित धागा कि० ग्रा० में और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और वह देश जिन्हें निर्यात किए गए थे।
- (3) निर्यात की विशेष शर्तों के साथ विनिर्माता को संभरित धागे की कुल मात्रा (कि० ग्रा०)। ऐसे मामलों में यथा निर्धारित अन्य ऐसे दस्तावेजों के साथ उनके द्वारा निर्यातित करघे के वर्ग मीटर दर्शाते हुए वस्त्र के विनिर्माता निर्यातक से एक प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

उपर्युक्त विवरण एक समर्पित लेखापाल द्वारा विधिवत सत्यापित होना चाहिए जो फर्म का या तो साक्षीदार या फर्म या उसकी सहायक फर्म का कर्मचारी न हो, परन्तु जो फर्म का वैधानिक रूप से लेखा परीक्षक हो।

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिवृत्तना

सं० 257/83-सोमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० —केन्द्रीय सरकार, सोमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) को धारा 25 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उससे उपावृत्त सारणों में विनिर्दिष्ट और सोमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 84 के अन्तर्गत आने वाली मशीनों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्घृष्टणीय सोमा-शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, और

(ख) द्वितीय वर्णित अधिनियम का धारा 3 के अधीन उन पर उद्घृष्टणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:—

- (1) छूट केवल नई मशीनों को लागू होगी,
- (2) (क) उक्त सारणों में विनिर्दिष्ट आयातित करघों का दशा में, ऐसे करघों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत माल का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा;
- (ख) उक्त सारणों में विनिर्दिष्ट आयातित रोटार स्पिनिंग मशीनों को दशा में, ऐसे रोटार स्पिनिंग मशीनों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत माल का भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा या इस प्रकार उत्पादित माल का भारत से बाहर निर्यात फेब्रिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाएगा।
- (3) उपरोक्त शर्त (2) में विनिर्दिष्ट निर्यात वाञ्छना को तत्पश्चात्, उक्त करघों पर या उक्त रोटार स्पिनिंग मशीनों पर उत्पादन के प्रारम्भ से 8 वर्ष की अवधि तक पूरा किया जाएगा।
- (4) आयातकर्ता, उक्त मशीनों के आयात के समय, सोमाशुल्क सहायक कलक्टर को, ऐसे अधिकारों द्वारा जो संयुक्त मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक की पंक्ति से नौथे का न हो, जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करना है कि:—
- (क) आयातकर्ता ने मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट आवश्यक बंधपत्र निष्पादित कर दिया है, और
- (ख) आयातकर्ता ने ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करने का वचनबद्ध किया है जो उक्त निर्यात बंधपत्र का पूर्ति को मानोटर करने और उसके प्रवर्तन के लिए मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए जाएंगे।

सारणी

क्रम सं० मशीनों का वर्णन

1 2

1. एयरजेट करघे

1 2

2. वाटरजेट करघे
3. अन्य शटल रहित करघे जिनमें कम से कम 260 सेमी० रोड स्पेस है।
4. रोटार स्पिनिंग मशीन

2. यह अधिवृत्तना 31 जुलाई, 1985 तक, जिनमें यह तारीख को सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[मि० सं० 346/31/82-टा० आर० यू०]

के० ए० बैकशाफिर्, अवर सचिव

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिवृत्तना

सं० : 284/88-सोमाशुल्क

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1983

सा० का० नि० 784 (त्र) :—केन्द्रीय सरकार सोमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) को धारा 25 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) का अधिवृत्तना संख्या 257/83, सोमा शुल्क, तारीख 1 मई, 1983 का निम्नलिखित संगोष्ठन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिवृत्तना में शर्त (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(2) आयातकर्ता उक्त मशीनों के आयात के समय, सोमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष संयुक्त मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात से अधून पंक्ति के अधिकारों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि:—

- (1) आयातकर्ता ने मुख्य निर्यात, आयात-निर्यात द्वारा इस आशय का बंधपत्र निष्पादित कर दिया है कि:—
- (क) उक्त सारणों में विनिर्दिष्ट आयातित करघे की दशा में ऐसे करघों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भारत से बाहर निर्यातित किया जाएगा; और
- (ख) उक्त सारणों में विनिर्दिष्ट आयातित रोटार स्पिनिंग मशीन का दशा में, ऐसे रोटार स्पिनिंग मशीनों द्वारा उत्पादित माल का 75% भारत से बाहर निर्यातित किया जाएगा या इस प्रकार उत्पादित माल का उपयोग भारत से बाहर निर्यातित फेब्रिकों के उत्पादन में किया जाएगा; और

(ग) उपर्युक्त शर्त (2) (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित निर्यात, वाञ्छना, यथास्थिति उक्त करघों पर या उक्त रोटार स्पिनिंग मशीनों पर उत्पादन के प्रारम्भ का तारीख से 8 वर्ष तक पूरी की जाएगी; और

- (2) आयातकर्ता के उन आदेशों का पालन करने का वचनबद्ध किया है, जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा उक्त निर्यात बाध्यताओं को मानिस्टर करने और उन्हें प्रयुक्त करने के लिए जारी किए जाएं।

[मि० सं० : 346/31/82-टी० आर० म०]

के० एस्० बेंकटगिरी, ज्यर गविष

टिप्पणी :—यह अधिसूचना, अधिसूचना सं० 257/83-कस्टम्स, दिनांक 1 सितंबर, 1983 को संशोधित करता है जो कि त्रिशष्ट वस्त्र मशानों के लिए कर दरियायता से संबंधित है। संशोधन का स्वरूप स्पष्टीकरण है और कोई राजस्व उप-धन नहीं है।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 53—ITC(PN)|83

New Delhi, the 17th December, 1983

Subject :—Import of certain Textile Machinery with concessional Customs duty for export production

File No. IPC|4|Misc.|121|83-84.—Attention is invited to the Ministry of Finance Department of Revenue, Notification No. 257|83-Customs dated the 1st September, 1983, as amended by Notification No. 284|83-Customs dated the 3rd October, 1983, regarding reduction of customs duty on import of certain items of textile machinery (copies annexed).

2. In pursuance of the aforesaid Notifications, the intending importers will have to fulfil the following conditions :—

(i) Necessary replacement permission in respect of looms|Rotor spinning machines (wherever applicable) shall be obtained from the concerned regional office of the Textile Commissioner.

(ii) In the case of Rotor spinning machines, which is a licenceable item, the importing mills shall approach the licensing authorities only after obtaining the necessary import licences.

(i) The intending mill will make the necessary application to licensing authorities, enclosing (a) the proforma invoice of the looms or rotor spinning machines indicating cif value of the machinery and expected delivery period and (b) a photostat copy of the letter of credit opened by their Banker.

(iv) Necessary bond with bank guarantee as per Annexure 'A' shall be executed with the licensing authority concerned before clearance of goods through the Customs. The bond will be for an

amount equal to the cif value of the imported machinery. It will be supported by a Bank guarantee. The bank guarantee would be a revolving one and shall be renewed till the export obligation is completed. The amount of the Bank guarantee will be equal to 12-1/2 per cent of the cif value of the imported machinery.

(v) In the case of imported looms, 75 per cent of the total production of goods produced by such looms shall be exported out of India.

(vi) In the case of imported Rotor spinning machines, 75 per cent of the goods produced by such rotor spinning machines shall be either exported out of India or the goods so produced shall be utilised in the production of fabrics exported out of India.

The export obligation mentioned at (v) and (vi) above shall be fulfilled for a period of 8 years from the commencement of the production on the said looms or on the said Rotor|spinning machines as the case may be.

(vii) The importing mill shall, within a maximum period of six months from the date of importation of looms, commence production.

(viii) The importing firm shall give an advance plan of production, giving details of quantity and type of fabric|goods proposed to be produced and exported to the Textile Commissioner at the beginning of each half year. First advance plan will be given within one month from the date of installation of the imported machinery.

(ix) For the purpose of monitoring and fulfilment of export obligation, year will be financial year from April-March.

(x) The importing firm shall also give full details of production and exports every six months to the Textile Commissioner as per the list in Annexure B. Any deviation in the plan of production will have to be reported and explained with reasons to the Textile Commissioner.

(xi) The firm shall furnish a report within 30 days of the close of each financial year to the concerned regional licensing authorities with a copy to the Textile Commissioner, Bombay, giving in respect of the previous financial year the information mentioned in Annexure 'C'. The Textile Commissioner shall verify whether the annual report is consistent with the advance production plan, the six monthly reports and the capacity of the imported machinery. The Textile Commissioner would then endorse the annual return furnished by the importing firm to the Regional Licensing Authority. On receipt of the report of the Textile Commissioner, the licensing authority would

finalise the export obligation account for the year and take necessary further action

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports and Exports
L. PRASAD,

Dy. Chief Controller of Imports and Exports

ANNEXURE 'A'

Bond Form of Export Obligation to be executed,
under the Duty Reduction Scheme

Know all men by these presents that we (1)———
of———hereinafter referred to
as "the importers" (which expression shall include
his|their successors and assigns) and (2)———
of———hereinafter referred to as "the
surety" (which is a nationalised bank and which
expression shall include its successors and assigns)
are jointly and severally, held and firmly bound
upto the President of India hereinafter called "the
Government" in the sum of Rs. (C.I.F. value of
the machine) to be paid to the said Government or
its successor and assigns for which payment we bind
ourselves and each of us, and each of our heirs
executors administrators successors and assigns
jointly and severally by these presents as hereinafter
stated to be paid to the said Government in the
manner as aforesaid.

2. Signed and sealed with our respective seals
this date of———19———.

3. Whereas the Joint|Deputy Chief Controller
of Imports and Exports (hereinafter referred to
as the Joint|Deputy Chief Controller which expres-
sion shall include the person for the time being
performing the duties of the said Joint|Deputy
Chief Controller) has permitted the importation of
the Loom(s)|spinning machine(s) listed in Annex-
ure I of this Bond in terms of the concessional
Customs duty rates and export obligation mentioned
in Ministry of Finance (Department of Revenue),
Notification No. 257/83-Customs dated 1-9-83 and
No. 284/83-Customs dated 3rd October, 1983 and
also on the basis of necessary replacement permis-
sion obtained from the concerned Regional Offices
of the Textile Commissioner.

4. And whereas one of the terms of the afore-
said Notification provides that the importer will
execute bond along with one sufficient surety in the
manner hereinabove written with such conditions
as are hereunder.

5. Now the conditions of the above written bond
are such that :—

If the said importer shall within 30 days from
the close of each financial year produce to the

regional licensing authority with copy of the Textile
Commissioner, Bombay a certificate duly signed by
the Chartered Accountant indicating therein the
details of production and export as mentioned in
Annexure B and C of the Public Notice No. 53-
ITC(PN)/83 dated 17-12-81 and bank certificate
showing F.O.B. realisation in the proforma given
in Annexure-IX of Appendix 10 in the Hand Book
of Import-Export Procedures, 1983-84, within six
months on the close of each financial (April-March)
year in respect of the imported machinery mention-
ed at Annexure-I of the Bond and imported against
the Ministry of Finance Notification of Duty Con-
cession referred to in para 3 above and also the
total quantity and F.O.B. value exported to a
place outside India in accordance with the terms
and conditions of the licence and duty concession
(except to any place in Nepal or Afghanistan if not
paid in free foreign exchange and Bhutan) showing
not less than 75 per cent of the production achieved
each year on the machinery imported has been ex-
ported for a period of eight years from the date of
commencement of production with the imported
machinery then the above written bond shall be void
and shall have no affect. Otherwise the bond will
remain in full force, virtue and effect.

6. And it is hereby declared that :

(a) the above written bond shall remain in force
and effect upto a period of one year from the date
of expiry of the export obligation period which may
be extended at the discretion of Import Licensing
Authority. This bond would be renewable and
would be renewed till the export obligation period
is over and will be equivalent to 100 per cent of
the CIF value of the machinery so imported. The
bond is backed by a guarantee of the above men-
tioned surety for the full value of the bond; but
the surety's guarantee is revolving one covering 12½
per cent of the total bond value for the time being
and renewable and/or replenishable from time to
time of meet the demands as and when arise. The
guarantee will remain in full force till the expiry
of the bond period.

(b) Any forbearance act or commission on the
part of the Government in enforcing the condition
of the aforesaid bond against the importer or any
time being granted or any indulgence by the Gov-
ernment to the importers in connection herewith
shall not discharge the surety;

(c) This bond is entered into the orders of the
Central Government for the performance of an act
in which the public are interested;

(d) That the payment of the amount of the bond
will not affect the liability of the importers to any
other action that may be taken under the Import
and Exports (Control) Act, 1947 or the Orders
and/or the Customs Act, 1962 and/or any other
law for the time being in force.

(e) That without prejudice to action which may be taken as specified above, in the case of shortfall of export obligation in any particular year, the Government will be free to invoke the bond amount equivalent to the extent of shortfall in export obligation. The bank guarantee would be recovered equivalent to the extent of shortfall in export obligation in that year and the importer shall have to renew the guarantee so as to make up the guarantee upto the level of 12½ per cent of the CIF value of the machinery imported to be maintained the balance period of Export obligation.

(f) Notwithstanding the provisions of the para (e) above, the Licensing authority is at liberty to invoke the full value of the bond, if the importer persists in defaulting the export obligation continuously for a period of two years. The stamp duty on this bond has been agreed to be paid by the Government.

In witness whereof the parties hereto have duly executed this bond the day of the month and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by and on behalf of (within named) importers.

In the presence of :—

- 1.
- 2.

(Witnesses should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by and on behalf of the surety named.

In the presence of :

- 1.
- 2.

(Witnesses should also give their occupation and address).

Accepted for and on behalf of the President of India.

(Name and designation of the Authorised Officer)

Note:—If the importer/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added "his heirs, executors & administrators." If the importer/surety in firm of partner it may be added "partner for the time being of the said firm and their respective heirs, executors and administrators". If the importer/surety is a limited company it may be added "its successors and assigns".

ANNEXURE 'B'

Six Monthly report to be sent to the Textile Commissioner, Bombay, Indicating :—

I. Imported Looms :

A. Information regarding specifications and Productive capacity of the looms, number of shifts worked, loom efficiency and capacity utilisation :—

B. Production :

- (i) The specification of each type of cloth produced on the looms.
- (ii) The quantities in sq. mtrs. of each variety of cloth produced.
- (iii) Export figures (in sq. mtrs.) and f.o.b. value of each variety of cloth exported.

II. Rotor spinning machine :

A. No. of rotors and productive capacity of spinning machinery, number of shifts worked, spinning efficiency and capacity utilisation.

B. Production :

- (i) Counts (in English system) Spun indicating countwise production/rotor/shift of 8 hours (in kgs.).
- (ii) Quantity (in kgs.) of yarn produced.
- (iii) Quantity (in kgs.) of yarn exported indicating the f.o.b. value.
- (iv) Quantity (in kgs.) and count of yarn delivered to manufacture of cloth for the purpose of export.
- (v) Specifications and quantity of fabric manufactured and exported and f.o.b. price.

ANNEXURE 'C'

A.—Details to be furnished within 30 days of the close of each financial year to the Regional Licensing Authority with copy to the Office of the Textile Commissioner, Bombay.

I Looms :

- (i) Production (in terms of sq. mtrs.) in respect of cloth produced on the imported looms.
- (ii) Exports of cloth in terms of sq. mtrs. and F.O.B. value and the countries to which they were exported.

II. Rotor Spinning Machines.

- (i) Production (in terms of kgs.) in respect of yarn produced on the Imported Rotor Spinning machines.
- (ii) Exports of yarn in terms of Kgs. and F.O.B. value and the countries to which they were exported.
- (iii) Total quantity of yarn (kgs.) supplies to a manufacturer with a specific condition of export. In such a case a certificate from the manufacturer Exporter of fabric indicating the sq. mtrs. of cloth exported by him together with such other documents as prescribed.

The statements above are to be duly certified by Chartered Accountant who is not partner or an employee of the firm or its associates concerned, but who may be a statutory auditor of the firm.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1983

NO. 257/83-CUSTOMS

G.S.R. —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts machines specified in the Table hereto annexed and falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from —

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of 20 per cent ad valorem; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act,

subject to the following conditions, namely :—

- (i) the exemption shall apply only to new machines;
- (ii) (a) in the case of imported looms specified in the said Table 75 per cent of the goods produced by such looms shall be exported out of India.
- (b) in the case of imported Rotor Spinning Machines specified in the said Table, 75% of the goods produced by such Rotor Spinning Machines shall be

either exported out of India or the goods so produced shall be utilised in the production of fabrics exported out of India;

- (iii) the export obligation specified in condition (ii) above shall be fulfilled for a period of 8 years from the commencement of production on the said looms or on the said Rotor Spinning Machines, as the case may be;
- (iv) the importer, at the time of import of the said machines, produces to the Assistant Collector of Customs a certificate issued by an officer not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports and Exports to the effect that —
- (a) the importer has executed the necessary bond specified in this regard by the Chief Controller of Imports and Exports; and
- (b) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation.

TABLE

Sl. No.	Description of the machines
1.	Airjet looms.
2.	Waterjet looms.
3.	Other shuttleless looms with read space not less than 260 cms.
4.	Rotor Spinning Machines.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of July, 1985.

[F. No. 346/31/82-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1983

No. 284/83-Customs

G.S.R. 784(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary

in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 257/83-Customs, dated the 1st September, 1983, namely :—

In the said notification, for condition (ii), (iii) and (iv), the following conditions shall be substituted, namely : —

“(ii) the importer, at the time of import of the said machines, produces to the Assistant Collector of Customs a certificate issued by an officer not lower in rank than a Joint Chief Controller of Imports & Exports to the effect that —

(1) the importer has executed a bond specified by the Chief Controller of Imports and Exports to the effect that —

(a) in the case of imported looms specified in the said Table, 75% of the goods produced by such looms shall be exported out of India; and

(b) in the case of imported Rotor Spinning Machines specified in the said Table, 75% of the goods produced

by such Rotor Spinning Machines shall be either exported out of India or the goods so produced shall be utilised in the production of fabrics exported out of India; and

(c) the export obligation mentioned in (a) and (b) of condition (ii) (1) above shall be fulfilled for a period of eight years from the commencement of production on the said looms or on the said Rotor Spinning Machines, as the case may be; and

(2) the importer has undertaken to comply with such instructions as are issued by the Chief Controller of Imports and Exports to monitor and enforce the fulfilment of the said export obligation”.

[F. No. 346/31/82-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

NOTE:— This notification amends notification 257/83-Customs dated the 1st September, 1983 which relates to duty concessions for specified textile machinery. The amendment is of a clarificatory nature and there is no revenue implication.

